



अगाडको आवरण पृष्ठ
बनमुरगा आ कछुवा




लेखक: एसएम जहाँगस्त
तह ६, कक्षा २
भोजपुरी




एगो जोडा बनमुरगा रहे। एगो कछुवा भी रहे। बहुत दनिसे पोखरामे रहसन। सगे संगे रहला हो गइल रहे। खुब मजा से रहत रहलसन।




एकबेर के बात ह। ओसाल मेघ ना भइल। पोखरा के पानी सुख गइल। मुरगा आ
कछुवा दुख भइल।




दुसरा पोखरामे जाएके पडल।
दुनुके अलग होखेके पडल।
कछुवा उदास होके चुपचाप बैठ गइल।




बनमुरगा जोडा तयार हो गइल लोग। संघत छुटे लागल।
कछुवा के कुछो समझमे नाआवत रहे।
कछुवा दुखी स्वर मे कहलस।




हमरो के साथ ले चलल लोगनि। बनमुरगा जोडा। कछुवा के फरीयाद सुनके कहलस।
इ ना हो सकत बा। कइसे तु हमनी संगे चलब।



हमनी जमीन पर चल नइखे सकत। तु हवा मे उड नइख सकत। तोहर आ हमर जोडी
काहे के।




जोडी बनमुरगा तनीका देर सोंचलख। कछुवा सोंचे लागल। आखरि मे एगो उपाय
सुझल।




बनमुरगा जोडा कहलख।

ठकिबा हमनीके बात मनब तब। कछुवा कहलख ठीक बा। रास्ता मे मुह ना खोलीय।


बनमुरगा जोडा कहलसन।




एगो लकडी के दुनु कनिर। बनमुरगा जोडा अपन चौच मे दबाइलख। कछुवा बीचमे मुंहसे दबले रहल। कछुवा के लेके बनमुरगा उड गइलसन।



रास्ता मे एगो गाँवसे गुजर भइल। लोग इ देखके हलौला करेलग लसन। कछुवा के बरदासत ना भइल। कछुवा कुछ बोले चाहलन।



जैसे बोलेला मुंह खोलल।
 कछुवा धपसे जमीनपर गरि गइल। आ चट से मर गइल।
 बनमुरगा जोडाके दुख लागल।



बडा अपसोस खडलसन।
आ उडत उडत चल लसन।
कहत चलल जात रहलसन।
अकलसे काम नाकरे वाला के। इहे अन्जाम होला।

शीर्षक पृष्ठ

बनमुरगा आ कछुवा

Images by Cathy Marlett, International Illustrations: The Art
Of Reading 3.0, © 2009 SIL International. CC-BY-ND 3.0.

तहगत, तह ६

This book has been developed under the Enabling Writers
Project with the support of the Curriculum Development
Centre-Ministry of Education, Science and Technology Nepal,
Language Commission- Government of Nepal, Rural
Development Center-Nepal and World Education.

भोजपुरीNepal



<http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/igo/>तपाईंले यस रचनालाई व्यापारिक प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न पाउनुहुन्छ। तपाईंले यस रचनालाई समायोज गर्न वा यसमा आफ्नो तर्फबाट थपथाप गर्न पाउनुहुन्छ।

तपाईंले लेखक, चित्रकार, इत्यादिको प्रतिलिपि अधिकार सूचना र नाम राख्नुपर्छ।

Translations—If you create a translation of this work, please add the following disclaimer along with the attribution: This translation was not created by USAID and should not be considered an official USAID translation.

USAID shall not be liable for any content or error in this translation. Adaptations—If you create an adaptation of this work, please add the following disclaimer along with the attribution: This is an adaptation of an original work by USAID. Views and opinions expressed in the adaptation are the sole responsibility of the author or authors of the adaptation and are not endorsed by USAID.

अगाडको आवरण पृष्ठको भक्तिपट्टी

यस पुस्तकको बारेमा: भोजपुरी भाषामा तयार गरिएको यो पुस्तक कक्षा २ मा अध्ययनरत भाइबहनीहरूका लागि हो। यो पुस्तक देवनागरी लिपिका सबै वर्ण र मात्रा सिकसिकेका बालबालिकाको स्वतन्त्र पठनका लागि तयार पारिएको हो। पढाइ सीपको विकास गर्नका लागि यस पुस्तकलाई शिक्षकले नयाँ शब्द सिकाउन, नमुना पठन गर्न र बोध शिक्षणका लागि प्रयोग गर्न सक्नेछन्।

The End



USAID
FROM THE AMERICAN PEOPLE



**Australian
Aid**

